



Avik Yadav

16 Jan 2022

08:15 PM

Haridwar

Model: All-Dosha-Report

Order No: 121069401

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 16/01/2022
दिन _____: रविवार
जन्म समय _____: 20:15:00 घंटे
इष्ट _____: 32:32:27 घटी
स्थान _____: Haridwar
राज्य _____: Uttarakhand
देश _____: India

अक्षांश _____: 29:58:00 उत्तर
रेखांश _____: 78:10:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:17:20 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 19:57:40 घंटे
वेलान्तर _____: -00:09:41 घंटे
साम्पातिक काल _____: 03:41:45 घंटे
सूर्योदय _____: 07:14:01 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:40:25 घंटे
दिनमान _____: 10:26:25 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: शिशिर
सूर्य के अंश _____: 02:16:51 मकर
लग्न के अंश _____: 05:53:36 सिंह

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: सिंह - सूर्य
राशि-स्वामी _____: मिथुन - बुध
नक्षत्र-चरण _____: आर्द्रा - 4
नक्षत्र स्वामी _____: राहु
योग _____: वैधृति
करण _____: वणिज
गण _____: मनुष्य
योनि _____: श्वान
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: शूद्र
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: सिंह
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: वायु
जन्म नामाक्षर _____: छ-छत्रपति
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: स्वर्ण - रजत
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: मकर

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1943	पौष	26
पंजाबी	संवत : 2078	माघ	3
बंगाली	सन् : 1428	माघ	2
तमिल	संवत : 2078	थई	3
केरल	कोल्लम : 1197	मकरम	2
नेपाली	संवत : 2078	माघ	3
चैत्रादि	संवत : 2078	पौष	शुक्ल 14
कार्तिकादि	संवत : 2078	पौष	शुक्ल 14

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 14
तिथि समाप्ति काल _____ : 27:18:37
जन्म तिथि _____ : 14
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : आर्द्रा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 26:09:05 घंटे
जन्म योग _____ : आर्द्रा
सूर्योदय कालीन योग _____ : ऐन्द्र
योग समाप्ति काल _____ : 15:19:23 घंटे
जन्म योग _____ : वैधृति
सूर्योदय कालीन करण _____ : गर
करण समाप्ति काल _____ : 14:10:28 घंटे
जन्म करण _____ : वणिज
भयात _____ : 52:15:16
भभोग _____ : 67:00:28
भोग्य दशा काल _____ : राहु 3 वर्ष 11 मा 23 दि

घात चक्र


मास _____ : आषाढ़
तिथि _____ : 2-7-12
दिन _____ : सोमवार
नक्षत्र _____ : स्वाति
योग _____ : परिघ
करण _____ : कौलव
प्रहर _____ : 3
वर्ग _____ : मृग
लग्न _____ : कर्क
सूर्य _____ : मीन
चन्द्र _____ : कुम्भ
मंगल _____ : मेष
बुध _____ : मकर
गुरु _____ : वृष
शुक्र _____ : मिथुन
शनि _____ : कुम्भ
राहु _____ : कर्क

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA


LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

		रा	चं
गु			
श सू बु			ल
शु मं	के		

लग्न कुण्डली

रा		
चं		गु
		श सू बु
ल		मं शु
	के	

विंशोत्तरी
राहु 3वर्ष 11मा 23दि
राहु

16/01/2022

11/01/2128

राहु	10/01/2026
गुरु	10/01/2042
शनि	09/01/2061
बुध	10/01/2078
केतु	09/01/2085
शुक्र	10/01/2105
सूर्य	11/01/2111
चन्द्र	10/01/2121
मंगल	11/01/2128

योगिनी
मंगला 0वर्ष 2मा 19दि
धान्या

07/04/2024

07/04/2027

धान्या	07/07/2024
भ्रामरी	06/11/2024
भद्रिका	07/04/2025
उल्का	07/10/2025
सिद्धा	08/05/2026
संकटा	06/01/2027
मंगला	06/02/2027
पिंगला	07/04/2027

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			सिंह	05:53:36	309:11:42	मघा	2	10	सूर्य	केतु	राहु	---
सूर्य			मक	02:16:51	01:01:05	उत्तराषाढा	2	21	शनि	सूर्य	गुरु	शत्रु राशि
चंद्र			मिथु	17:03:03	11:58:37	आर्द्रा	4	6	बुध	राहु	शुक्र	मित्र राशि
मंगल			धनु	00:06:44	00:43:13	मूल	1	19	गुरु	केतु	केतु	मित्र राशि
बुध	व		मक	15:44:11	00:24:55	श्रवण	2	22	शनि	चंद्र	शनि	सम राशि
गुरु			कुंभ	09:36:26	00:12:58	शतभिषा	1	24	शनि	राहु	गुरु	सम राशि
शुक्र	व		धनु	20:13:01	00:29:42	पूर्वाषाढा	3	20	गुरु	शुक्र	गुरु	सम राशि
शनि			मक	19:30:03	00:06:59	श्रवण	3	22	शनि	चंद्र	बुध	स्वराशि
राहु	व		वृष	06:11:55	00:08:10	कृतिका	3	3	शुक्र	सूर्य	बुध	मित्र राशि
केतु	व		वृश्चि	06:11:55	00:08:10	अनुराधा	1	17	मंगल	शनि	बुध	मित्र राशि
हर्ष	व		मेष	16:39:32	00:00:06	भरणी	1	2	मंगल	शुक्र	चंद्र	---
नेप			कुंभ	26:50:19	00:01:30	पूर्वाभाद्रपद	3	25	शनि	गुरु	शुक्र	---
प्लूटो			मक	02:17:04	00:01:59	उत्तराषाढा	2	21	शनि	सूर्य	गुरु	---
दशम भाव			वृष	03:32:25	--	कृतिका	--	3	शुक्र	सूर्य	शनि	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 24:09:41


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	कर्क 20:30:04	सिंह 05:53:36
2	सिंह 20:30:04	कन्या 05:06:33
3	कन्या 19:43:01	तुला 04:19:29
4	तुला 18:55:57	वृश्चिक 03:32:25
5	वृश्चिक 18:55:57	धनु 04:19:29
6	धनु 19:43:01	मकर 05:06:33
7	मकर 20:30:04	कुम्भ 05:53:36
8	कुम्भ 20:30:04	मीन 05:06:33
9	मीन 19:43:01	मेष 04:19:29
10	मेष 18:55:57	वृष 03:32:25
11	वृष 18:55:57	मिथुन 04:19:29
12	मिथुन 19:43:01	कर्क 05:06:33


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	सिंह	05:53:36
2	कन्या	01:34:25
3	तुला	01:13:20
4	वृश्चिक	03:32:25
5	धनु	06:04:33
6	मकर	07:04:04
7	कुम्भ	05:53:36
8	मीन	01:34:25
9	मेष	01:13:20
10	वृष	03:32:25
11	मिथुन	06:04:33
12	कर्क	07:04:04


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा	पूर्वाफाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा
स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा
शतभिषा	पूर्वाभाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com


कारक, अवस्था, रश्मि

ग्रह	कारक			अवस्था			ग्रह बल
	चर	स्थिर	बालादि	दीप्तादि	शयनादि	रश्मि	
सूर्य	ज्ञाति	पितृ	मृत	खल	प्रकाश	1.83	11 %
चंद्र	भातृ	मातृ	युवा	मुदित	सभा	6.80	34 %
मंगल	कलत्र	भातृ	बाल	मुदित	प्रकाश	4.52	41 %
बुध	मातृ	ज्ञाति	युवा	शक्त	नेत्रपाणि	0.82	31 %
गुरु	पुत्र	धन	कुमार	शान्त	सभा	1.62	70 %
शुक्र	आत्मा	कलत्र	वृद्ध	शक्त	सभा	4.44	69 %
शनि	अमात्य	आयु	कुमार	स्वस्थ	सभा	3.77	18 %
राहु	---	ज्ञान	वृद्ध	मुदित	सभा	0.00	82 %
केतु	---	मोक्ष	वृद्ध	मुदित	शयन	0.00	82 %
कुल						23.80	


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा
स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा
शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा

चलित कुंडली



लग्न-चलित



ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : राहु 3 वर्ष 11 मास 23 दिन

राहु 18 वर्ष 16/01/2022 10/01/2026	गुरु 16 वर्ष 10/01/2026 10/01/2042	शनि 19 वर्ष 10/01/2042 09/01/2061	बुध 17 वर्ष 09/01/2061 10/01/2078	केतु 7 वर्ष 10/01/2078 09/01/2085
00/00/0000	गुरु 28/02/2028	शनि 12/01/2045	बुध 08/06/2063	केतु 08/06/2078
00/00/0000	शनि 10/09/2030	बुध 22/09/2047	केतु 04/06/2064	शुक्र 08/08/2079
00/00/0000	बुध 16/12/2032	केतु 31/10/2048	शुक्र 05/04/2067	सूर्य 14/12/2079
00/00/0000	केतु 22/11/2033	शुक्र 01/01/2052	सूर्य 09/02/2068	चंद्र 14/07/2080
16/01/2022	शुक्र 23/07/2036	सूर्य 13/12/2052	चंद्र 11/07/2069	मंगल 10/12/2080
शुक्र 29/07/2022	सूर्य 11/05/2037	चंद्र 14/07/2054	मंगल 08/07/2070	राहु 28/12/2081
सूर्य 23/06/2023	चंद्र 10/09/2038	मंगल 23/08/2055	राहु 25/01/2073	गुरु 04/12/2082
चंद्र 22/12/2024	मंगल 17/08/2039	राहु 29/06/2058	गुरु 02/05/2075	शनि 13/01/2084
मंगल 10/01/2026	राहु 10/01/2042	गुरु 09/01/2061	शनि 10/01/2078	बुध 09/01/2085

शुक्र 20 वर्ष 09/01/2085 10/01/2105	सूर्य 6 वर्ष 10/01/2105 11/01/2111	चंद्र 10 वर्ष 11/01/2111 10/01/2121	मंगल 7 वर्ष 10/01/2121 11/01/2128	राहु 18 वर्ष 11/01/2128 00/00/0000
शुक्र 11/05/2088	सूर्य 30/04/2105	चंद्र 11/11/2111	मंगल 08/06/2121	राहु 23/09/2130
सूर्य 11/05/2089	चंद्र 29/10/2105	मंगल 11/06/2112	राहु 27/06/2122	गुरु 16/02/2133
चंद्र 10/01/2091	मंगल 06/03/2106	राहु 11/12/2113	गुरु 03/06/2123	शनि 24/12/2135
मंगल 11/03/2092	राहु 29/01/2107	गुरु 12/04/2115	शनि 12/07/2124	बुध 12/07/2138
राहु 12/03/2095	गुरु 17/11/2107	शनि 10/11/2116	बुध 09/07/2125	केतु 31/07/2139
गुरु 10/11/2097	शनि 29/10/2108	बुध 12/04/2118	केतु 05/12/2125	शुक्र 17/01/2142
शनि 10/01/2101	बुध 05/09/2109	केतु 11/11/2118	शुक्र 04/02/2127	00/00/0000
बुध 11/11/2103	केतु 11/01/2110	शुक्र 12/07/2120	सूर्य 12/06/2127	00/00/0000
केतु 10/01/2105	शुक्र 11/01/2111	सूर्य 10/01/2121	चंद्र 11/01/2128	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल राहु 3 वर्ष 11 मा 17 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

गुरु - गुरु 10/01/2026 28/02/2028	गुरु - शनि 28/02/2028 10/09/2030	गुरु - बुध 10/09/2030 16/12/2032	गुरु - केतु 16/12/2032 22/11/2033	गुरु - शुक्र 22/11/2033 23/07/2036
गुरु 23/04/2026 शनि 25/08/2026 बुध 13/12/2026 केतु 28/01/2027 शुक्र 07/06/2027 सूर्य 15/07/2027 चंद्र 18/09/2027 मंगल 03/11/2027 राहु 28/02/2028	शनि 23/07/2028 बुध 01/12/2028 केतु 24/01/2029 शुक्र 28/06/2029 सूर्य 13/08/2029 चंद्र 29/10/2029 मंगल 22/12/2029 राहु 10/05/2030 गुरु 10/09/2030	बुध 05/01/2031 केतु 23/02/2031 शुक्र 11/07/2031 सूर्य 21/08/2031 चंद्र 29/10/2031 मंगल 16/12/2031 राहु 18/04/2032 गुरु 07/08/2032 शनि 16/12/2032	केतु 05/01/2033 शुक्र 03/03/2033 सूर्य 20/03/2033 चंद्र 17/04/2033 मंगल 07/05/2033 राहु 27/06/2033 गुरु 12/08/2033 शनि 05/10/2033 बुध 22/11/2033	शुक्र 03/05/2034 सूर्य 21/06/2034 चंद्र 10/09/2034 मंगल 06/11/2034 राहु 01/04/2035 गुरु 09/08/2035 शनि 10/01/2036 बुध 27/05/2036 केतु 23/07/2036
गुरु - सूर्य 23/07/2036 11/05/2037	गुरु - चंद्र 11/05/2037 10/09/2038	गुरु - मंगल 10/09/2038 17/08/2039	गुरु - राहु 17/08/2039 10/01/2042	शनि - शनि 10/01/2042 12/01/2045
सूर्य 06/08/2036 चंद्र 31/08/2036 मंगल 17/09/2036 राहु 31/10/2036 गुरु 09/12/2036 शनि 24/01/2037 बुध 06/03/2037 केतु 23/03/2037 शुक्र 11/05/2037	चंद्र 21/06/2037 मंगल 19/07/2037 राहु 30/09/2037 गुरु 04/12/2037 शनि 19/02/2038 बुध 29/04/2038 केतु 28/05/2038 शुक्र 17/08/2038 सूर्य 10/09/2038	मंगल 30/09/2038 राहु 20/11/2038 गुरु 05/01/2039 शनि 27/02/2039 बुध 17/04/2039 केतु 07/05/2039 शुक्र 02/07/2039 सूर्य 20/07/2039 चंद्र 17/08/2039	राहु 26/12/2039 गुरु 21/04/2040 शनि 07/09/2040 बुध 09/01/2041 केतु 01/03/2041 शुक्र 26/07/2041 सूर्य 07/09/2041 चंद्र 19/11/2041 मंगल 10/01/2042	शनि 03/07/2042 बुध 05/12/2042 केतु 07/02/2043 शुक्र 09/08/2043 सूर्य 03/10/2043 चंद्र 03/01/2044 मंगल 07/03/2044 राहु 19/08/2044 गुरु 12/01/2045
शनि - बुध 12/01/2045 22/09/2047	शनि - केतु 22/09/2047 31/10/2048	शनि - शुक्र 31/10/2048 01/01/2052	शनि - सूर्य 01/01/2052 13/12/2052	शनि - चंद्र 13/12/2052 14/07/2054
बुध 01/06/2045 केतु 28/07/2045 शुक्र 08/01/2046 सूर्य 26/02/2046 चंद्र 19/05/2046 मंगल 15/07/2046 राहु 10/12/2046 गुरु 20/04/2047 शनि 22/09/2047	केतु 16/10/2047 शुक्र 23/12/2047 सूर्य 12/01/2048 चंद्र 15/02/2048 मंगल 09/03/2048 राहु 09/05/2048 गुरु 02/07/2048 शनि 04/09/2048 बुध 31/10/2048	शुक्र 12/05/2049 सूर्य 09/07/2049 चंद्र 13/10/2049 मंगल 20/12/2049 राहु 11/06/2050 गुरु 12/11/2050 शनि 15/05/2051 बुध 25/10/2051 केतु 01/01/2052	सूर्य 18/01/2052 चंद्र 16/02/2052 मंगल 07/03/2052 राहु 28/04/2052 गुरु 14/06/2052 शनि 08/08/2052 बुध 26/09/2052 केतु 16/10/2052 शुक्र 13/12/2052	चंद्र 30/01/2053 मंगल 05/03/2053 राहु 31/05/2053 गुरु 16/08/2053 शनि 15/11/2053 बुध 05/02/2054 केतु 11/03/2054 शुक्र 15/06/2054 सूर्य 14/07/2054

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

शनि - मंगल 14/07/2054 23/08/2055	शनि - राहु 23/08/2055 29/06/2058	शनि - गुरु 29/06/2058 09/01/2061	बुध - बुध 09/01/2061 08/06/2063	बुध - केतु 08/06/2063 04/06/2064
मंगल 07/08/2054 राहु 07/10/2054 गुरु 30/11/2054 शनि 02/02/2055 बुध 31/03/2055 केतु 24/04/2055 शुक्र 30/06/2055 सूर्य 20/07/2055 चंद्र 23/08/2055	राहु 26/01/2056 गुरु 13/06/2056 शनि 25/11/2056 बुध 21/04/2057 केतु 21/06/2057 शुक्र 11/12/2057 सूर्य 02/02/2058 चंद्र 29/04/2058 मंगल 29/06/2058	गुरु 30/10/2058 शनि 26/03/2059 बुध 04/08/2059 केतु 27/09/2059 शुक्र 28/02/2060 सूर्य 14/04/2060 चंद्र 01/07/2060 मंगल 23/08/2060 राहु 09/01/2061	बुध 14/05/2061 केतु 04/07/2061 शुक्र 28/11/2061 सूर्य 11/01/2062 चंद्र 25/03/2062 मंगल 15/05/2062 राहु 24/09/2062 गुरु 20/01/2063 शनि 08/06/2063	केतु 29/06/2063 शुक्र 28/08/2063 सूर्य 16/09/2063 चंद्र 16/10/2063 मंगल 06/11/2063 राहु 30/12/2063 गुरु 16/02/2064 शनि 14/04/2064 बुध 04/06/2064
बुध - शुक्र 04/06/2064 05/04/2067	बुध - सूर्य 05/04/2067 09/02/2068	बुध - चंद्र 09/02/2068 11/07/2069	बुध - मंगल 11/07/2069 08/07/2070	बुध - राहु 08/07/2070 25/01/2073
शुक्र 24/11/2064 सूर्य 14/01/2065 चंद्र 11/04/2065 मंगल 10/06/2065 राहु 12/11/2065 गुरु 30/03/2066 शनि 10/09/2066 बुध 04/02/2067 केतु 05/04/2067	सूर्य 21/04/2067 चंद्र 16/05/2067 मंगल 04/06/2067 राहु 20/07/2067 गुरु 30/08/2067 शनि 19/10/2067 बुध 02/12/2067 केतु 20/12/2067 शुक्र 09/02/2068	चंद्र 24/03/2068 मंगल 23/04/2068 राहु 09/07/2068 गुरु 16/09/2068 शनि 07/12/2068 बुध 19/02/2069 केतु 21/03/2069 शुक्र 15/06/2069 सूर्य 11/07/2069	मंगल 01/08/2069 राहु 24/09/2069 गुरु 12/11/2069 शनि 08/01/2070 बुध 28/02/2070 केतु 21/03/2070 शुक्र 21/05/2070 सूर्य 08/06/2070 चंद्र 08/07/2070	राहु 25/11/2070 गुरु 29/03/2071 शनि 23/08/2071 बुध 02/01/2072 केतु 26/02/2072 शुक्र 30/07/2072 सूर्य 15/09/2072 चंद्र 01/12/2072 मंगल 25/01/2073
बुध - गुरु 25/01/2073 02/05/2075	बुध - शनि 02/05/2075 10/01/2078	केतु - केतु 10/01/2078 08/06/2078	केतु - शुक्र 08/06/2078 08/08/2079	केतु - सूर्य 08/08/2079 14/12/2079
गुरु 15/05/2073 शनि 23/09/2073 बुध 18/01/2074 केतु 08/03/2074 शुक्र 24/07/2074 सूर्य 03/09/2074 चंद्र 11/11/2074 मंगल 29/12/2074 राहु 02/05/2075	शनि 05/10/2075 बुध 21/02/2076 केतु 19/04/2076 शुक्र 30/09/2076 सूर्य 18/11/2076 चंद्र 08/02/2077 मंगल 06/04/2077 राहु 31/08/2077 गुरु 10/01/2078	केतु 18/01/2078 शुक्र 12/02/2078 सूर्य 20/02/2078 चंद्र 04/03/2078 मंगल 13/03/2078 राहु 04/04/2078 गुरु 24/04/2078 शनि 18/05/2078 बुध 08/06/2078	शुक्र 18/08/2078 सूर्य 08/09/2078 चंद्र 14/10/2078 मंगल 07/11/2078 राहु 10/01/2079 गुरु 08/03/2079 शनि 15/05/2079 बुध 14/07/2079 केतु 08/08/2079	सूर्य 14/08/2079 चंद्र 25/08/2079 मंगल 01/09/2079 राहु 20/09/2079 गुरु 08/10/2079 शनि 28/10/2079 बुध 15/11/2079 केतु 22/11/2079 शुक्र 14/12/2079

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	7
भाग्यांक	5
मित्र अंक	2, 3, 6, 7, 5
शत्रु अंक	4, 8
शुभ वर्ष	25,34,43,52,61
शुभ दिन	मंगल, रवि, गुरु
शुभ ग्रह	मंगल, सूर्य, गुरु
मित्र राशि	कन्या, कुम्भ
मित्र लग्न	वृश्चिक, मेष, मिथुन
अनुकूल देवता	गणेश
शुभ रत्न	माणिक्य
शुभ उपरत्न	लाल हकीक, लाल तुर्मली
भाग्य रत्न	मूंगा
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	नारंगी
शुभ दिशा	पूर्व
शुभ समय	सूर्योदय
दान पदार्थ	मूंगा, केसर, रक्तचन्दन
दान अन्न	गेहूँ
दान द्रव्य	घी

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997


shubhmamishra26@gmail.com

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
मूंगा	मंगल	95%	सन्तति सुख, भाग्योदय, सुख
हीरा	शुक्र	77%	सन्तति सुख, व्यावसायिक उन्नति, पराक्रम
गोमेद	राहु	77%	व्यावसायिक उन्नति, सन्तति सुख
लहसुनिया	केतु	77%	सुख, सन्तति सुख
माणिक्य	सूर्य	66%	शत्रु व रोग मुक्ति, स्वास्थ्य
पुखराज	गुरु	59%	दम्पति, सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव
पन्ना	बुध	52%	शत्रु व रोग मुक्ति, धनार्जन, धन
मोती	चंद्र	41%	हानि, व्यय
नीलम	शनि	0%	शत्रु व रोग, दाम्पत्य कष्ट



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
राहु	10/01/2026	53%	16%	83%	52%	59%	83%	0%	89%	64%
गुरु	10/01/2042	72%	52%	100%	28%	72%	64%	0%	77%	77%
शनि	09/01/2061	53%	16%	83%	58%	59%	83%	6%	83%	64%
बुध	10/01/2078	72%	16%	95%	64%	59%	83%	0%	77%	77%
केतु	09/01/2085	53%	16%	100%	52%	59%	83%	0%	64%	89%
शुक्र	10/01/2105	53%	16%	95%	58%	59%	89%	0%	83%	83%
सूर्य	11/01/2111	78%	52%	100%	52%	66%	64%	0%	64%	64%
चंद्र	10/01/2121	72%	58%	95%	58%	59%	77%	0%	64%	64%
मंगल	11/01/2128	72%	52%	100%	28%	66%	77%	0%	64%	83%

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	16/01/2022-29/04/2022	12/07/2022-17/01/2023	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	08/08/2029-05/10/2029	17/04/2030-31/05/2032	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	22/10/2038-05/04/2039	13/07/2039-28/01/2041	06/02/2041-26/09/2041

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	06/03/2049-10/07/2049	04/12/2049-25/02/2052	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	27/05/2059-11/07/2061	13/02/2062-07/03/2062	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	11/07/2061-13/02/2062	07/03/2062-24/08/2063	06/02/2064-09/05/2064
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	24/08/2063-06/02/2064	09/05/2064-13/10/2065	03/02/2066-03/07/2066
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	30/08/2068-04/11/2070	-----	-----

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	15/01/2079-12/04/2081	03/08/2081-07/01/2082	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	18/07/2088-31/10/2088	05/04/2089-19/09/2090	25/10/2090-21/05/2091
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	19/09/2090-25/10/2090	21/05/2091-02/07/2093	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	02/07/2093-18/08/2095	-----	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	11/10/2097-02/05/2098	20/06/2098-26/12/2099	17/03/2100-16/09/2100

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया

फल

शुभ
शुभ
शुभ
अशुभ
सम

क्षेत्र

शत्रु व रोग मुक्ति
व्यावसायिक उन्नति
धनार्जन
व्यय
धन

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म काल में मंगल की स्थिति चन्द्रकुंडली में सप्तम भाव में है अतः आप एक मांगलिक पुरुष हैं परन्तु शास्त्रानुसार आपके मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। अतः ऐसे मंगल से आपको शुभ फल ही अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा परन्तु स्वभाव में थोड़ी उग्रता अवश्य हो सकती है। मंगल के शुभ प्रभाव से आप जीवन में समस्त प्रकार से सुखेश्वर्य एवं धन धान्य को अर्जित करेंगे तथा सुख पूर्वक जीवन में इनका उपभोग करेंगे।

इस मंगल के प्रभाव से आपके विवाह में थोड़ा विलम्ब हो सकता है परन्तु विवाह में कोई विशेष बाधाएं या समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। शान्ति पूर्वक आप का विवाह कार्य सम्पन्न होगा। आप दोनों का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विवाह के पश्चात दाम्पत्य जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। इसके अतिरिक्त आपके परस्पर भी सामान्यतया मधुर एवं प्रगाढ़ रहेंगे।

आपकी चन्द्र कुंडली में मंगल सप्तम भाव में स्थित है अतः इसके प्रभाव से आप सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करने में सफल रहेंगे। परस्पर अत्यंत ही प्रेम एवं सहयोग का भाव रहेगा जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से शांत तथा सुखी रहेगा। इस मंगल की दशम भाव पर दृष्टि होने से आप किसी उच्च पद को प्राप्त करने में सफल रहेंगे तथा समाज में पूर्ण मान सम्मान तथा ख्याति भी अर्जित करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में सर्वदा यथोचित उन्नति होती रहेगी। प्रथम भाव पर मंगल की दृष्टि से शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा परन्तु स्वभाव में यदा कदा उग्रता का भाव विद्यमान होगा। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि से आप पारिवारिक सुख से सर्वदा युक्त रहेंगे सामान्यतया शान्ति पूर्वक परिवार का पालन करेंगे। विद्याध्ययन के क्षेत्र में भी आप सफल रहेंगे तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी आप समर्थ होंगे। इस प्रकार आपका जीवन पूर्ण शान्ति तथा सुख से व्यतीत होगा।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए आपको किसी गैर मांगलिक या ऐसी मंगली कन्या से विवाह करना चाहिए जिसकी चन्द्रकुंडली में मंगल का दोष उचित नियमानुसार भंग हो रहा हो ऐसा उचित मिलान होने पर आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति तथा सफलता अर्जित करेंगे। एक सौभाग्यशाली पुरुष होकर जीवन में धन धान्य एवं ऐश्वर्य से सुसम्पन्न रहेंगे। जीवन में आपको किसी भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। सभी भौतिक सुखों का आप आनंद पूर्वक उपभोग करेंगे।

इसके अतिरिक्त जिस कन्या की चन्द्रकुंडली में सप्तम भाव में ही मंगल हो उस कन्या से यदि आवश्यक हो तभी विवाह करना चाहिए अन्यथा यत्नपूर्वक उपेक्षा ही करनी चाहिए। क्योंकि समान भाव में स्थित मंगल जीवन साथी के लिए विशेष शुभ नहीं होता तथा दाम्पत्य जीवन में शारीरिक तथा अन्य प्रकार से अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी जिससे आपका सुखी दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त अन्य भावों में यदि मंगल स्थित हो तो वह शुभ फल प्रदान करेगा तथा दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी अतः अच्छी तरह सोच विचार कर अन्तिम निर्णय लेना चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार से परेशानी या असुविधा उत्पन्न न हो।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलार्द्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलार्द्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में घातक नामक कालसर्प योग विद्यमान है। लेकिन यह केवल आंशिक रूप में विद्यमान है। फलस्वरूप जातक जन्म से ही परिवार से पृथक रहता है। नाना-नानी, दादा-दादी का स्नेह आंशिक रूप में मिलता है। जातक को माता-पिता का विरह सहना पड़ता है। जातक का वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए भी कभी-कभी दुःखमय हो जाता है। जातक की सन्तान कभी-कभी अस्वस्थ हो जाती है और जातक को थोड़ा बहुत चिन्ता परेशानी घेर लेती है। घर में सुख शान्ति का थोड़ा बहुत अभाव रहता है। नौकरी-व्यवसाय में व्यवधान उपस्थित होता है पर कालान्तर में वह स्वतः समाप्त हो जाता है। कभी जातक को पदच्युत होने का भय भी होता है और व्यापार व्यवसाय में परिश्रम करने के बाद भी विशेष रूप से जमता नहीं या आंशिक नुकसान उठाना पड़ता है। भागीदारी में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है एवं जातक को आंशिक रूप में क्लेश भोगना पड़ता है।

इस योग के कारण जातक के अनेक शत्रु होते हैं। वे सब षड्यन्त्र रचते रहते हैं पर वे लोग अपने षड्यन्त्र में सफल नहीं हो पाते। मित्रगण समय-समय पर धोखा दे जाते हैं। जिससे जातक को थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और सरकारी पदाधिकारी से अनबन रहती है तथा राज्यपक्ष से भी क्षति प्राप्त होती है। जातक की स्थिति कभी राजा तो कभी रंक जैसा जीवन व्यतीत होता है।

इस योग के प्रभाव से जातक के शरीर में रोग व्याधि समय-समय पर घेर लेती है। कभी चोट लगने का भय भी होता है। जातक को सुख शान्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जातक के जीवन में एक अच्छा समय आता है एवं उसमें प्रसिद्धि भी मिलती है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें। अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. ॐ नमः शिवाय' का प्रतिदिन 108 बार जप करें। कुल जप संख्या- 21000।
3. ताम्बे के लोटे में नाग के जोड़े बहते पानी में एक बार प्रवाहित करें।
4. नवनाग स्तोत्र का एक वर्ष तक प्रतिदिन पाठ करें।
5. राहु के महादशा, अन्तर्दशा आने पर राहु मन्त्र के जाप कम से कम प्रतिदिन 108 बार करें। जप संख्या अट्ठारह हजार (18000) है।
6. शुभ मुहूर्त में अभिमन्त्रित गोमेद धारण करें।
7. श्रावणमास में 30 दिन तक महादेव का अभिषेक करें।
8. सरस्वती जी की एक वर्ष विधिवत उपासना करें।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

9. राहु कवच एवं स्तोत्र का पाठ करें।
10. प्रत्येक सोमवार को दही से भगवान शंकर पर - ॐ हर हर महादेव कहते हुए अभिषेक करें। यह केवल 16 सोमवार तक करें।
11. रसोईघर में बैठकर भोजन करें।
12. शुभ मुहूर्त में बहते पानी में कोयला तीन बार प्रवाहित करें।
13. गोमेद, सुवर्ण, तिल, सरसों, नीलवस्त्र, खड्ग, कम्बल, आदि समय-समय पर दान करें।
14. शुभ मुहूर्त में मुख्य द्वार पर चाँदी का स्वस्तिक एवं दोनो ओर धातु से निर्मित नाग चिपका दें।
15. हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- सूर्य पर राहु और शनि दोनों का प्रभाव है ।
- लग्नेश षष्ठ भाव में स्थित है और उस पर शनि और राहु का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में सूर्य के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में सूर्य पितृदोष कारक ग्रह है अतः पिता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गायत्री जप, सूर्योपासना, आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ, आक की समिधा से हवन करें । रविवार को गाय या बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों ।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)


9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

रुद्राक्ष

रुद्राक्ष को शिव का अश्रु कहा जाता है। रुद्राक्ष दो शब्दों के मेल से बना है पहला रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव और दूसरा अक्ष इसका अर्थ होता है आंसू। माना जाता है की रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई वह मोती स्वरूप बूँदें हैं जिसे ग्रहण करके समस्त प्रकृति में आलौकिक शक्ति प्रवाहित हुई तथा मानव के हृदय में पहुँचकर उसे जागृत करने में सहायक हो सकी।

रुद्राक्ष की भारतीय ज्योतिष में भी काफी उपयोगिता है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने में रुद्राक्ष का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जो अपने आप में एक अचूक उपाय है। गम्भीर रोगों में यदि जन्मपत्री के अनुसार रुद्राक्ष का उपयोग किया जाये तो आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति व सामर्थ्य उसके धारीदार मुखों पर निर्भर होती है। रुद्राक्ष सिद्धिदायक, पापनाशक, पुण्यवर्धक, रोगनाशक, तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।

एक मुखी से लेकर चौदह मुखी तक रुद्राक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं, उनकी अलौकिक शक्ति और क्षमता अलग-अलग मुख रूप में दर्शित होती है। रुद्राक्ष धारण करने से जहां आपको ग्रहों से लाभ प्राप्त होगा वहीं आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। रुद्राक्ष का स्पर्श, दर्शन, उस पर जप करने से, उस की माला को धारण करने से समस्त पापों का और विघ्नों का नाश होता है ऐसा महादेव का वरदान है, परन्तु धारण की उचित विधि और भावना शुद्ध होनी चाहिए।

रुद्राक्ष दाने पर उभरी हुई धारियों के आधार पर रुद्राक्ष के मुख निर्धारित किये जाते हैं। रुद्राक्ष के बीचों-बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रेखा होती है जिसे मुख कहा जाता है। रुद्राक्ष में यह रेखाएं या मुख एक से 14 मुखी तक होते हैं और कभी-कभी 15 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष भी देखे गए हैं। आधी या टूटी हुई लाईन को मुख नहीं माना जाता है। जितनी लाईनें पूरी तरह स्पष्ट हों उतने ही मुख माने जाते हैं।

पुराणों में प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग-अलग महत्व और उपयोगिता का उल्लेख किया गया है -

एक मुखी - सूर्य ग्रह - स्वास्थ्य, सफलता, मान-सम्मान, आत्म - विश्वास, आध्यात्म, प्रसन्नता, अनायास धनप्राप्ति, रोगमुक्ति तथा व्यक्तित्व में निखार और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है।

दो मुखी - चंद्र ग्रह- वैवाहिक सुख, मानसिक शान्ति, सौभाग्य वृद्धि, एकाग्रता, आध्यात्मिक उन्नति, पारिवारिक सौहार्द, व्यापार में सफलता और स्त्रियों के लिए इसे सबसे उपयुक्त माना गया है।

तीन मुखी - मंगल ग्रह- शत्रु शमन और रक्त सम्बन्धी विकार को दूर करने में सहायक होता है।

चार मुखी - बुध ग्रह- शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि - विवेक, और कामशक्ति में वृद्धि प्राप्त कराता है।

पांच मुखी - गुरु ग्रह- शारीरिक आरोग्यता, अध्यात्म उन्नति, मानसिक शांति और प्रसन्नता के लिए भी इसका उपयोग किया होता है।

छः मुखी - शुक्र ग्रह - प्रेम सम्बन्ध, आकर्षण, स्मरण शक्ति में वृद्धि, तीव्र बुद्धि, कार्यों में पूर्णता और व्यापार में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कराता है।

सात मुखी - शनि ग्रह- शनि दोष निवारण, धन-संपत्ति, कीर्ति, विजय प्राप्ति, और कार्य व्यापार आदि में बढ़ेतरा कराने वाला है।

आठ मुखी - राहू ग्रह- राहु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, ज्ञानप्राप्ति, चित्त में एकाग्रता, मुकदमे में विजय, दुर्घटनाओं तथा प्रबल शत्रुओं से रक्षा, व्यापार में सफलता और उन्नतिकारक है।

नौ मुखी - केतू ग्रह- केतु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, सुख-शांति, व्यापार वृद्धि, धारक की अकालमृत्यु नहीं होती तथा आकस्मिक दुर्घटना का भी भय नहीं रहता।

10 मुखी - भगवान महावीर- कार्य क्षेत्र में प्रगति, स्थिरता व वृद्धि, सम्मान, कीर्ति, विभूति, धन प्राप्ति, लौकिक-पारलौकिक कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

11 मुखी - इंद्र ग्रह- आर्थिक लाभ व समृद्धिशाली जीवन, किसी विषय का अभाव नहीं रहता तथा सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं।

12 मुखी - भगवान विष्णु ग्रह- विदेश यात्रा, नेतृत्व शक्ति प्राप्ति, शक्तिशाली, तेजस्वी बनाता है। ब्रह्मचर्य रक्षा, चेहरे का तेज और ओज बना रहता है। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा मिट जाती है।

13 मुखी - इंद्र ग्रह- सर्वजन आकर्षण व मनोकामना प्राप्ति, यश-कीर्ति, मान-प्रतिष्ठा व कामदेव का प्रतीक है। उपरी बाधा और नजर दोष से बचाव के लिए विशेष उपयोगी है।

14 मुखी - शनि ग्रह- आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति, धन प्राप्ति व कष्टनिवारक हैं। शनि की साढ़ेसाती या ढैया में विशेष कष्टनिवारक है।

आपकी कुंडली और रुद्राक्ष

आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। आप अत्यंत तेजस्वी एवं आत्मविश्वासी हैं। अग्नि की ही भांति आप ऊर्जावान भी हैं किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं जो कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करके ही बैठते हैं। नीतियाँ बनाना एवं उन पर कार्य करना आपको विशेष पसंद हो सकता है। अनुशासनहीनता आपको बर्दाश्त नहीं होती है। जो नियम आप बनाते हैं, उन पर स्वयं भी कार्य करते हैं और दूसरों से करवाते भी है। अपना मान सम्मान आपको बहुत प्रिय होता है। यदि किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाते हैं। स्थिर लग्न होने से आपके स्वभाव एवं व्यवहार में भी स्थिरता होती है। आप जो भी कहते हैं, उस पर अंत तक स्थिर रहते हैं। जिस भी कार्य को आप शुरू करते हैं उससे अंत तक जुड़े रहते हैं। आप मानसिक और

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

प्रशासनिक कार्य अच्छे से करते हैं। इसके विपरीत हो सकता है की शारीरिक कार्य करना आपको अधिक पसंद न हो। आप जिनसे प्यार अथवा मित्रता करते हैं उस पर केवल अपना ही अधिकार समझते हैं और ये ईर्ष्या की हद तक होता है।

कुंडली के 6, 8 व 12 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भावों को शुभ भाव नहीं समझा जाता। इन भाव-भावों का सम्बन्ध जिन भी ग्रहों व भावों से बनता है उनकी शुभता में कमी आती है। त्रिक भावों को शुभ भाव नहीं समझा जाता। इन्हीं में से छठा भाव रोग, ऋण व सेवा भाव है। शत्रुओं का विचार करने के लिए भी इसी भाव का विश्लेषण किया जाता है। यह उपचय भाव भी है। इसके अलावा अर्थ भाव है। इस भाव के भावेश का अशुभ प्रभाव में होना, आपके स्वास्थ्य में कमी का कारण बन सकता है। दूसरा त्रिक भाव अष्टम भाव है। इस भाव से जिन विषयों का विचार किया जाता है, उन विषयों में आठवा भाव आयु, दुर्घटना, आपरेशन, अपयश व नैतिक पतन है। इस भाव से व्यक्ति को मिलने वाला अपमान, पदच्युति, शोक, ऋण, मृत्यु तथा व्यक्ति के जीवन में आने वाली रुकावटें देखी जाती है। अंतिम त्रिक भाव द्वादश भाव है, द्वादश भाव से व्यय, हानियां, कारावास, बंधन, विदेश में जीवन आदि का विचार किया जाता है।

इन भावों के स्वामियों और इन भावों में स्थित ग्रहों में अशुभता का अंश पाया जाता है। जिसके फलस्वरूप ये आपके जीवन को समय समय पर बाधित करते रहते हैं।

आपके लग्न के लिए षष्ठ भाव व सप्तम भाव के स्वामी शनि है, शनि षष्ठेश है, इसलिए आपको वात-पित्त रोग हो सकते हैं। विवेक व बुद्धि से शत्रुओं पर विजय, विद्या व बुद्धि से अल्प लाभ, संतान से न्यून सुख, जीवन संकटमय, व्यय अधिक, पराक्रम वृद्धि, भाई बहनों से अल्प सुख का कारण बन सकता है।

अष्टम भाव व पंचम के गुरु आपको दीर्घायु, प्रभावशाली दिनचर्या, विद्या व बुद्धि का अल्प लाभ, संतान से कष्ट, विदेश स्थानों से लाभ, माता, भूमि व सम्पत्ति से साधारण लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं।

द्वादश के चन्द्र है। द्वादशेश चन्द्र मानसिक सुखों में कमी, माता सुख में कमी करता है, धन और प्रतिष्ठा की हानि होती है। इसके अतिरिक्त यह योग नजला-जुकाम और गुप्त शत्रुओं की वृद्धि करता है।

आपकी कुंडली के छठे भाव में सूर्य स्थित है। इस भाव में सूर्य शत्रुनाशक, क्रोधी, घमंडी, कामातुर, मामा -मौसी को कष्ट, निरुत्साही, छाती के रोग, ऋणी सम्बन्धी कष्ट दे सकते हैं। हृदय सम्बन्धी रोग भी स्वास्थ्य में कमी का कारण बन सकते हैं।


बुध षष्ठ भाव में स्थित है, बुध की यह स्थिति आपके अपमान का कारण, चतुरता से शत्रुओं का दमन, मामा सुख प्राप्ति का कारक, मित्रों-छोटे भाई बहनों से शत्रुवत सम्बन्ध दे सकता है। परोपकारी, श्रेष्ठ वक्ता, आलोचक और व्याधिक्य का गुण देता है।

आपकी कुंडली में शनि सौतेली माता से कष्ट, संपत्तिनाश, अल्पभाषी, एकांतप्रिय,

शारीरिक कष्ट का कारक बन सकता है।

इन सभी के फलों में शुभता प्राप्त करने के लिए आपको 1, 2, 4, 5, 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच धारण करना चाहिए। यह कवच सफेद धागे में डालकर सोमवार को गंगाजल से शुद्ध कर ॐ नम शिवाय मंत्र के 108 बार जप कर धारण करना चाहिए। तदुपरांत शिवजी को कच्चा दूध चढ़ाए। क्षमतानुसार दान करे। इस प्रकार आपके जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलेगा एवं विशेष कष्टों में न्यूनता आएगी। कुंडली के सभी ग्रहों को शुभता प्रदान करने के लिए आप शिव कृपा रुद्राक्ष माला जो एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष से निर्मित होती है, भी धारण कर सकते हैं। एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष माला अद्भुत व चमत्कारी फल प्रदान करती है।

उपरोक्त कवच बिना दशा, गोचर विचार के आपको जीवन भर धारण करना चाहिए। क्योंकि यह कवच जन्म लग्न एवं उसमें स्थित ग्रहों के अवगुणों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है।



ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

आपके जन्म समय में लग्न में सिंह राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी सूर्य है। सामान्यतया सिंह लग्न में उत्पन्न जातक तेजस्वी साहसी एवं पराक्रमी होते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है तथा अपनी बुद्धि एवं पराक्रम के बल पर वे जीवन में उन्नति प्राप्त करने में समर्थ रहते हैं। धनैश्वर्य वैभव एवं भौतिक सुख संसाधनों से ये प्रायः युक्त रहते हैं तथा जीवन में सुख पूर्वक इसका उपभोग करते हैं। ये जातक सिद्धांतवादी होते हैं तथा अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इनकी प्रवृत्ति धार्मिक भी होती है तथा स्वभाव में परोपकार का भाव भी रहता है फलतः ये पूर्ण विश्वास के योग्य होते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों में ये किसी उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं जिससे सामाजिक मान प्रतिष्ठा तथा यश समाज में विद्यमान रहता है साथ ही नेतृत्व की क्षमता भी इनमें विद्यमान रहती है।

अतः इसके प्रभाव से आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा जिससे अन्य लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। आप निर्भय पुरुष होंगे तथा अपने समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण सांसारिक कार्यकलापों को निर्भयता से सम्पन्न करके उनमें वांछित सफलता प्राप्त करेंगे जिससे आपको भौतिक सुख संसाधनों तथा अन्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी तथा उन्नति मार्ग भी प्रशस्त रहेंगे फलतः आपका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा।

आपके हृदय में उदारता का भाव भी विद्यमान रहेगा तथा अन्य जनों के प्रति स्नेह के भाव का प्रदर्शन करेंगे। आपको स्वपुरुषार्थ से जीवन में सफलता प्राप्त होगी तथा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप सफल होंगे तथा आपके शत्रु या प्रतिद्वन्दी आपसे भयभीत होंगे परन्तु यदि आप अन्य जनों के साथ पूर्ण समानता का व्यवहार करें तो आप समाज में लोक प्रियता तथा अतिरिक्त प्रतिष्ठा भी अर्जित करने में समर्थ हो सकते हैं।

लग्न में लग्नेश सूर्य की राशि के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा मानसिक शांति एवं सन्तुष्टि भी बनी रहेगी। आप में शारीरिक बल की प्रधानता रहेगी तथा परिश्रम एवं पराक्रम से अपने सांसारिक महत्व के कार्यों को सम्पन्न करेंगे तथा इनमें इच्छित सफलता प्राप्त करके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। राजनीति या सरकार अथवा व्यापार आदि में आप उन्नतिशील रहेंगे तथा इन क्षेत्रों में आपकी श्रेष्ठता बनी रहेगी।

आपके स्वभाव में तेजस्विता का भाव भी विद्यमान होगा। अतः यदा कदा आप अनावश्यक क्रोध या उग्रता के भाव का भी प्रदर्शन करेंगे। योग आदि के प्रति भी आपकी इच्छा रहेगी तथा समय समय पर योगाभ्यास करेंगे। आप में गम्भीरता का भाव विद्यमान होगा फलतः आपके कार्य धैर्य एवं गम्भीरतापूर्वक सम्पन्न होंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी।

धर्म के प्रति आपके मन में श्रद्धा रहेगी तथा श्रद्धापूर्वक धार्मिक कार्यकलापों तथा अनुष्ठानों को सम्पन्न करेंगे। इसी परिपेक्ष्य में सत्संग आदि में भी अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। आपको भ्रमण या पर्वतीय क्षेत्रों में घूमना रुचिकर लगेगा। अतः आप समय समय पर ऐसे स्थानों की सैर करते रहेंगे। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक समस्त सुखों का उपभोग करते

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

हुए आप अपना समय व्यतीत करेंगे ।



ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

धन, परिवार, आंख एवं वाणी

आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में कन्या राशि स्थित है जिसका स्वामी बुध है। अतः इसके प्रभाव से आप धन संग्रह के प्रति हमेशा यत्नशील रहेंगे तथा आपात्काल के लिए आपके पास कुछ न कुछ अवश्य रहेगा। आतिथ्य सत्कार की भावना की आप में प्रबलता रहेगी तथा इससे आपको हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। फलतः समय समय पर आप अपने घर में अन्य जनों को आमंत्रित करते रहेंगे। आपका पारिवारिक जीवन शांत तथा प्रसन्नता से युक्त रहेगा तथा परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही परस्पर सेवा तथा सहयोग का भाव भी विद्यमान रहेगा। लेकिन पैतृक सम्पत्ति की प्राप्ति आप अल्प मात्रा में ही करेंगे तथा जो कुछ अर्जित करेंगे अपने परिश्रम एवं पराक्रम से करेंगे।

यह स्थान वाणी का प्रतिनिधि भाव है तथा इसका स्वामी बुध वाणी का प्रतिनिधि है अतः इसके प्रभाव से आपकी वाणी में धुरता रहेगी तथा अन्य जनों को अपनी वाणी से प्रभावित करने में समर्थ रहेंगे। साथ ही अपने विचारों को भी आप सरल एवं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में सफल होंगे। इसके साथ ही आप अपनी विद्वता से धनार्जन करेंगे तथा स्वर्ण आदि बहुमूल्य धातुओं को भी अर्जित करने में समर्थ रहेंगे। इस प्रकार आप धन वैभव से युक्त होकर आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

शिक्षा, माता, वाहन एवं जायदाद

आपके जन्मसमय में चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी मंगल है तथा केतु भी चतुर्थ भाव में ही स्थित है। योगकारक ग्रह की राशि में स्थिति के प्रभाव से जीवन में आप समस्त सांसारिक एवं भौतिक सुखों को अर्जित करने में समर्थ होंगे एवं आधुनिक उपकरणों से भी युक्त होंगे। आप एक पराक्रमी व्यक्ति भी होंगे तथा समाज में अपना यथोचित स्तर बनाएं रखेंगे।

आप एक भाग्याली व्यक्ति होंगे फलतः चल एवं अचल सम्पत्ति के स्वामित्व को अवश्य प्राप्त करेंगे। नाना या नानी की ओर से भी आपको न्यूनाधिक मात्रा में चल एवं अचल सम्पत्ति के योग बनते हैं। अपनी योग्यता एवं परिश्रम से भी आप न्यूनाधिक रूप से सम्पत्ति अर्जित करते रहेंगे। लेकिन विवादित सम्पत्ति से आपको परेशानी होगी। अतः ऐसी सम्पत्ति का क्रय-विक्रय या हस्तांतरण नहीं करना चाहिए तथा यत्न पूर्वक इसकी उपेक्षा करनी चाहिए।

जीवन में आपको उत्तम घर की प्राप्ति होगी परंतु प्रारंभ में मध्यम घर होगा। आपका घर सामान्यतया सुसज्जित एवं आधुनिक होगा तथा इसकी सुन्दरता एवं आकर्षण बनाएं रखने में तत्पर होंगे तथा पारिवारिक जनों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। आपका घर किसी मध्यम कालोनी में होगा तथा पड़ोसी भी शिक्षित एवं बुद्धिमान होंगे परंतु संबंधों में औपचारिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त वाहन सुखभी मिलेगा लेकिन पूर्ण सुख मध्यावस्था के बाद ही प्राप्त होगा।

आपकी माता जी तेजस्वी, बुद्धिमान एवं भौतिकतावादी महिला होंगी तथा अपने व्यवहार कुशलता से पारिवारिक जनों का पूर्ण ध्यान रखेंगी। परिवार पर उनका पूर्ण नियंत्रण होगा तथा सभी लोग उन्हें वांछित आदर प्रदान करेंगे। आपकी उन्नति में उनका मुख्य योगदान होगा तथा समयानुसार आपको उनसे वांछित आर्थिक एवं अन्य प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। आप भी उनका पूर्ण ध्यान रखेंगे तथा अपनी ओर से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे परंतु यदा कदा मतभेदों के कारण संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अतः ऐसी परिस्थितियों की आपको यत्नपूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए।

अध्ययन के प्रति आप की रुचि बनी रहेगी परंतु इसमें आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा तथापि छोटी कक्षाओं में आप अच्छे अंक अर्जित करने में समर्थ हो सकते हैं लेकिन स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने में आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप किसी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा आदि करें तो इसमें आपको इच्छित एवं अल्प परिश्रम से ही सफलता मिलेगी। अतः आपके लिए स्नातक परीक्षा की अपेक्षा तकनीकी शिक्षा का डिप्लोमा आसान सिद्ध होगा।

चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति के प्रभाव से आप युवावस्था के बाद रक्तचाप या हृदय संबंधी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। अतः ऐसे पदार्थों का उपयोग सीमित मात्रा में करें जिससे ऐसी समस्याओं उत्पन्न होती हो। इससे आपका जीवन सामान्यतया सुख-पूर्वक व्यतीत होगा।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

प्रणय सम्बन्ध, सन्तान एवं बुद्धि

आपके जन्म समय में धनु राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बृहस्पति है तथा मंगल भी पंचमभाव में ही स्थित है। अतः इसके प्रभाव से आप तीव्र बुद्धि के व्यक्ति होंगे तथा समस्त सांसारिक एवं अन्य कार्य कलापों पर बुद्धिमता की स्पष्ट छाप छोड़ेंगे। आप शीघ्र निर्णय लेने में समर्थ होंगे तथा कठिन से कठिन समस्या का समाधान आसानी से शीघ्र ही करेंगे। इससे अन्य सामाजिक लोग भी आपसे प्रभावित होंगे तथा वांछित सम्मान प्रदान करेंगे। वैदिक साहित्य एवं दर्शन में आपकी रुचि कम ही होगी परन्तु आधुनिक वैज्ञानिक विषयों अध्ययन एवं ज्ञानार्जन में पूर्ण रुचि होगी तथा परिश्रम पूर्वक इस क्षेत्र में वांछित ज्ञान अर्जित करने में समर्थ होंगे। भौतिक शास्त्र या आर्युविज्ञान में आप कोई शोध कार्य या नवीन सिद्धान्त भी प्रतिपादित कर सकते हैं जिससे एक विद्वान के रूप में आपको प्रसिद्धि मिलेगी।

पंचमभाव में मंगल के प्रभाव से प्रेम-प्रसंग आदि में आपकी रुचि कम ही होगी क्योंकि आप एक व्यावहारिक व्यक्ति होंगे तथा भावुकता से भी दूर ही होंगे तथापि प्रेम प्रसंग स्थापित होने पर आप उसे पूर्ण मर्यादा एवं आदर्श की सीमा में रखेंगे तथा भावनात्मक आकर्षण तक ही सीमित रहेंगे। पंचम भावस्थ मंगल के प्रभाव से पुत्र सन्तति से आप युक्त होंगे तथा कन्याओं की अपेक्षा पुत्र अधिक होंगे। आपकी सन्तति बुद्धिमान पराक्रमी एवं योग्य होगी तथा अपने इन्हीं गुणों के द्वारा जीवन में वांछित उन्नति एवं सफलता अर्जित करेगी साथ ही माता-पिता के प्रति उनके मन में पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान का भाव होगा तथा उनकी आज्ञा पालन में भी तत्पर होंगे। वे महत्वपूर्ण कार्यों में माता पिता की अवश्य सलाह लेंगे तथापि यदा कदा वे स्वयं भी कोई निर्णय ले सकते हैं लेकिन उनकी योग्यता पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए तथा उन्हें स्वतन्त्र निर्णय भी करने देने चाहिए। इससे परस्पर विश्वास के भाव में वृद्धि होगी। माता की अपेक्षा पिता के प्रति बच्चों का विशेष लगाव होगा तथा व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए पिता से विशेष सहयोग की आशा रखेंगे। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में माता पिता का विशेष ध्यान रखेंगे तथा अपनी ओर से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे।

अध्ययन के क्षेत्र में वे बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली होंगे तथा शिक्षा में अच्छी उपलब्धियां अर्जित करके अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे। आप भी उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे चाहे उसमें व्यय कितना ही क्यों न हो। इसके अतिरिक्त वे व्यवहार कुशल होंगे तथा अपने उत्तम कार्य कलापों से अन्य जनों को भी प्रभावित करेंगे। जिससे सभी लोग उन्हें यथोचित स्नेह प्रदान करेंगे।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

परिवार, विवाह एवं साझेदार

आपके जन्म समय में सप्तम भाव में कुम्भ राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शनि है तथा बृहस्पति भी सप्तम भाव में ही स्थित है। सामान्यतया कुम्भ राशि की सप्तम भाव में स्थिति के प्रभाव से जातक का सहयोगी उग्र स्वभाव कुल में श्रेष्ठ व्ययशील पित प्रवृत्ति एवं सेवकों से युक्त होता है। साथ ही बृहस्पति के प्रभाव से सुशील शिक्षित एवं बुद्धिमता के भाव से युक्त रहता है।

अतः इसके प्रभाव से आपकी पत्नी सुशील स्वभाव की शिक्षित महिला होंगी तथा सांसारिक कार्य कलापों को दक्षता से सम्पन्न करेंगी। वह बुद्धिमता से उत्कृष्ट कार्य कलापों को भी सम्पन्न करेंगी। कुम्भ राशि के प्रभाव से वह उच्च कुल की कन्या होगी एवं यदा कदा उग्रता के भाव का भी प्रदर्शन करेंगी परन्तु कर्तव्य परायणता का भाव उनमें विद्यमान होगा तथा परिवार एवं समाज के प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी।

आपकी पत्नी सुंदर एवं गौरवर्ण की महिला होंगी तथा कद भी सामान्य होगा। उनके सभी अंग प्रत्यंग पुष्टता एवं सुडौलता से युक्त होंगे जिससे उनके सौन्दर्य एवं व्यक्तित्व के आकर्षण में वृद्धि होगी। अवसरानुकूल वह सौन्दर्य प्रसाधनों का भी प्रयोग करेंगी। बृहस्पति के प्रभाव से आयु के साथ साथ उनमें स्थूलता भी आ सकती है लेकिन सुंदरता भी रहेगी। इसके अतिरिक्त साहित्य एवं कला में भी रुचिशील रहेंगी तथा सुंदर वस्तुओं का संग्रह करेंगी।

आपका विवाह परिवार या संबन्धियों में किसी वृद्ध तथा श्रेष्ठ व्यक्ति के सहयोग से सम्पन्न होगा। विवाह के बाद आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा तथा आपस में प्रेम तथा समर्पण का भाव होगा जिससे सुख दुख में एक दूसरे का पूर्ण ध्यान रखेंगे। आप दोनों सांसारिक महत्व के कार्यों को परस्पर सलाह एवं सहमति से पूर्ण करेंगे जिससे समानता का भाव बना रहेगा। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के मनोभावों का पूर्ण आदर करेंगे जिससे दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

आपका विवाह किसी सुशिक्षित परिवार में सम्पन्न होगा तथा सामाजिक रूप से वे प्रभावी व्यक्ति होंगे परन्तु विवाह में आपको ससुराल से विशेष दहेज या धन सम्पत्ति की प्राप्ति नहीं होगी। सास ससुर से आपके अच्छे संबंध रहेंगे एवं उनसे नैतिक सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी तथा आपको वे पुत्रवत स्नेह प्रदान करेंगे आप भी महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं में उनकी सलाह लेंगे जिससे परस्पर विश्वास का भाव विद्यमान होगा।

सास ससुर के प्रति आपकी पत्नी पूर्ण सेवा भाव का प्रदर्शन करेंगी तथा देवर एवं ननदों को भी अपने सद्व्यवहार तथा मधुर वाणी से प्रभावित रखेंगी। अतः वे भी उन्हें वांछित सम्मान एवं सहयोग प्रदान करेंगे जिससे पारिवारिक शांति बनी रहेगी।

व्यापार में साझेदारी के लिए स्थिति शुभ रहेगी तथा इससे आपको वांछित लाभ होगा। यदि अपनी आयु से अधिक आयु के व्यक्ति से साझेदारी की जाए तो इसमें अधिक लाभ होगा एवं आपस में विश्वसनीयता का भाव भी बना रहेगा जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

व्यवसाय, पिता एवं सामाजिक स्तर

आपके जन्म समय में दशमभाव में वृष राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शुक्र है। साथ ही राहु भी दशम भाव में ही स्थित है। वृष राशि भूमि तत्व एवं राहु वायु तत्व युक्त ग्रह है। अतः इनके प्रभाव से आपका कार्यक्षेत्र श्रमसाध्य होने के साथ साथ बौद्धिक क्रिया प्रधान भी होगा। साथ ही आप इसमें सतत उन्नति की ओर अग्रसर होंगे तथा उन्नति में आपको अनावश्यक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे मानसिक सन्तुष्टि की अनुभूति होगी।

दशमभाव में राहु की स्थिति के प्रभाव से आपके लिए आजीविका की दृष्टि से वायु सेना, हवाई सेवा, खनिज एवं खान विभाग, पेट्रोलियम, भारी उद्योग क्षेत्र के प्रशासकीय कर्मचारी, संदेश वाहक, इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग, नाटक आदि का क्षेत्र, राजनीति तथा प्रशासकीय विभाग उत्तम रहेंगे। इनमें कार्य करने से आपको वांछित उन्नति की प्राप्ति होगी तथा कार्य करने से आप सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे। अतः आपको यत्नपूर्वक उपरोक्त क्षेत्रों में ही अपनी आजीविका का चयन करना चाहिए जिससे सुगमता से आप अपने को उच्चस्तर पर स्थापित करने में सफल हो सकेंगे।

व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए लोहे का व्यापार, फैक्ट्री, उद्योग, इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण या क्रय विक्रय, पेट्रोल पम्प, शराब का व्यापार तथा जुए आदि से लाभ होगा। अतः यदि आप व्यापार करने के इच्छुक हों तो उपरोक्त पदार्थों एवं द्रव्यों का ही व्यापार करना चाहिए। इससे आपके लाभ मार्ग प्रशस्त रहेंगे तथा उन्नति भी आपको शीघ्र एवं इच्छित मिलेगी। अतः यत्नपूर्वक व्यापार को इन्हीं क्षेत्रों में प्रारंभ करें।

दशम भाव में राहु के प्रभाव से आपको सामाजिक सम्मान एवं मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी तथा किसी उच्च पद को प्राप्त करने में भी समर्थ होंगे। आप किसी सामाजिक संस्था या क्लब आदि में भी पदाधिकारी हो सकते हैं इससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी तथा सामाजिक यश भी दूर दूर तक फैलेगा। लेकिन राहु के प्रभाव से इसमें आपको किंचित विलम्ब हो सकता है परन्तु इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए तथा परिश्रम एवं ईमानदारी से अपने कार्य कलापों को सम्पन्न करना चाहिए।

आपके पिता तेजस्वी पराक्रमी एवं योग्य व्यक्ति होंगे तथा समाज में उनका पूर्ण प्रभाव होगा जिससे सभी लोग उन्हें वांछित मान सम्मान प्रदान करेंगे। साथ ही सामाजिक कार्यों में भी उनकी रुचि रहेगी। आपके प्रति उनका पूर्ण वात्सल्य का भाव होगा तथा शिक्षा की उच्चस्तर पर समुचित व्यवस्था करेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति तथा सफलता में भी उनका प्रमुख योगदान होगा आप भी स्वयं परिश्रमी एवं बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तथा अपने कार्य कलापों से पिता की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। साथ ही सांसारिक शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य आपसी सलाह एवं सहयोग से करेंगे लेकिन यदा कदा वैचारिक एवं सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण किंचित असुविधा उत्पन्न हो सकती है। अतः ऐसे अवसरों की यत्नपूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

वार्षिक फलादेश - 2026

इस वर्ष मीन राशि के शनि अष्टम भाव में रहेंगे। 25 नवम्बर तक कुम्भ राशि के राहु सप्तम भाव में रहेंगे और उसके बाद मकर राशि में षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। वर्ष के पूर्वार्द्ध में मिथुन राशि के गुरु एकादश भाव में रहेंगे और 2 जून को कर्क राशि में द्वादश भाव में गोचर करेंगे और फिर से अतिचारी होकर 31 अक्टूबर को सिंह राशि में लग्न स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस वर्ष मंगल ग्रह अपनी सरल गति से गोचर करेंगे। वर्षारम्भ से 1 फरवरी तक शुक्र अस्त रहेंगे और अक्टूबर में भी 14 दिन के लिए अस्त होंगे।

व्यवसाय

कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ सामान्य रहेगा। शनि एवं राहु का गोचर प्रतिकूल होने के कारण आपको कार्यक्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। गुप्त शत्रु व बिरोधी आपके कार्यों में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। व्यापार को लेकर मानसिक परेशानी बनी रहेगी। इस समय के अंतराल में जल्द ही किसी पर भी विश्वास न करें और न ही जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें।

02 जून के बाद समय और प्रभावित हो रहा है। उस समय आपके साथ धोखा या व्यापार में हानि हो सकती है। सोच को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि वर्षान्त में राहु एवं गुरु ग्रह का गोचर एक साथ अनुकूल हो रहा है। उस समय आपको अपने व्यापार व कार्यक्षेत्र में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

धन संपत्ति

आर्थिक दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध सामान्य रहेगा। एकादशस्थ गुरु के प्रभाव से धनागम बना रहेगा। आपको भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। 02 जून के बाद समय का काफी प्रतिकूल हो रहा है। जीवनसाथी की बीमारी में आपका धन व्यय होगा। साथ ही कुछ ऐसे खर्च आ जाएंगे जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है।

किसी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में धन निवेश न करें। लेन देन के मामले में हमेशा सावधान रहें। 31 अक्टूबर के बाद समय अनुकूल हो जाएगा।

घर-परिवार, समाज

पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्षारम्भ में अधिक व्यस्तता के कारण अपने परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे परन्तु आपके परिवार में सुख शान्ति का वातावरण बना रहेगा। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। तृतीय स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आपकी सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

02 जून के बाद गुरु ग्रह का गोचर प्रतिकूल हो रहा है। उस समय परिवार में किसी बड़े व्यक्ति के साथ आप का वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अतः अच्छा यही होगा की आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं और उचित निर्णय लें। सप्तमस्थ राहु जीवनसाथी का

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है।

संतान

संतान की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध अनुकूल रहेगा। पंचम स्थान परगुरु ग्रह केदृष्टि प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। वे अपने बौद्धिक बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उनकी शिक्षा में भी सुधार होगा। नवविवाहित व्यक्तियों के गर्भाधान के लिए बहुत सुन्दर समय चल रहा है। आपके बच्चे का चौमुखी विकास होगा। उसकी उन्नति के सारे मार्ग प्रशस्त होंगे परन्तु आपके दूसरे बच्चे के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है।

06 जून के बाद समय प्रभावित हो रहा है। आपके बच्चे को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है जिससे कारण उसकी शिक्षा-दीक्षा प्रभावित हो सकती है परन्तु 31 अक्टूबर के बाद समय फिर से अनुकूल हो जाएगा।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध सामान्य रहेगा। शनि एवं राहु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उत्पन्न कर सकता है। अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है परन्तु एकादशस्थ गुरु के प्रभाव से आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे।

02 जून के बाद छोटी मोटी बीमारियों से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आर्थिक मुद्दे या किसी और मुद्दे को ले कर आवश्यकता से ज्यादा चिंता न करें। नहीं तो इन सबका नकारात्मक प्रभाव आपके सेहत पर पड़ेगा। द्वादशस्थ गुरु के जल तत्व राशि में होने के कारण कफ रोग या मौसमजनित बीमारियां हो सकती हैं। सुबह-सुबह व्यायाम करना या योग करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। 31 अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य अनुकूल होना शुरू हो जाएगा।

करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा

वर्ष का पूर्वार्द्ध विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। पंचम स्थान परगुरु के दृष्टि प्रभाव से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हो जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी।

02 जून के बाद समय प्रतिकूल हो रहा है। उस समय प्रतियोगिता पारीक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार अथक प्रयास करना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है उनको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। 24 नवम्बर के बाद छठे स्थान में राहु ग्रह का गोचर हो रहा है। उस समय आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी।

यात्रा-तबादला

यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। वर्ष के प्रारम्भ में छोटी-मोटी यात्राएं तो होती रहेंगी। साथ ही 02 जून के बाद द्वादश स्थान केगुरु आपको विदेश यात्रा करा भी सकते

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

है।

चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से अपने घर से दूर रहने वाले जातकों की अपनी जन्म भूमि की यात्रा होगी।

धर्म कार्य एवं ग्रह शांति

धार्मिक कार्य के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। एकादशस्थ गुरु के प्रभाव से आपका मन पूजा-पाठ के प्रति ज्यादा आकर्षित रहेगा। परमात्मा की भक्ति या मन्त्र पाठ में ज्यादा रूचि लेंगे। 02 जून के बाद गुरु का गोचर द्वादश स्थान में होगा। उस समय आप दान पुण्य अधिक करेंगे।

- द्विज, देव, ब्राह्मण, बुजुर्ग, गुरु व मंदिर के पुजारी की सेवा, सुश्रुषा करें।
- पीली दाल, केला व बेसन की मिठाई मंदिर में दान करें एवं गुरुवार का व्रत रखें।
- शनिवार के दिन काली वस्तु अथवा काला कम्बल दान करें।
- गरीबों को भोजन कराएं।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

वार्षिक फलादेश - 2027

वर्ष के पूर्वार्द्ध में मीनस्थ शनि अष्टम भाव में रहेंगे और 3 जून को मेष राशि एवं नवम भाव में प्रवेश करेंगे और वक्री होकर 03 अक्टूबर को फिर से मीन राशि एवं अष्टम भाव में आजाएंगे। मकर राशि का राहु इस वर्ष षष्ठ भाव में रहेगा। वक्री गुरु 25 जनवरी को कर्क राशि एवं द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे और मार्गी होकर 26 जून को सिंह राशि एवं लग्न स्थान में गोचर करेंगे और फिर से अतिचारी होकर 26 नवम्बर को कन्या राशि एवं द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 26 अप्रैल से 5 जुलाई तक मंगल वक्री होकर सिंह राशि एवं लग्न स्थान में रहेंगे। 21 जुलाई से 7 सितम्बर तक शुक्र अस्त रहेंगे।

व्यवसाय

वर्ष का पूर्वार्द्ध व्यापारिक रूप से अच्छा नहीं रहेगा। गुरु एवं शनि ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने से आपके कार्य व्यवसाय में कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। व्यापार में सफलता प्राप्त के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा। अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से आपके कार्यों में गुप्त शत्रुओं द्वारा रुकावटें डाली जा सकती है। अतः इस समय के अन्तराल में आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए। पहले से चले आ रहे व्यापार को और अच्छे ढंग से चलाएं। नौकरी करने वाले व्यक्तियों का समय सामान्य रहेगा।

26 जून के बाद समय कुछ अच्छा हो रहा है। सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से व्यापार व कार्य क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लग्नस्थ गुरु के प्रभाव से अधिकारी व वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। भाग्य अनुकूल होने के कारण आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। 26 नवम्बर के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति हो सकती है।

धन संपत्ति

आर्थिक दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध अनुकूल नहीं रहेगा। वर्ष के पूर्वार्द्ध में कुछ ऐसे खर्च आ सकते हैं जिससे आपको आर्थिक हानि हो सकती है। धनागम के मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। इस समय के अन्तराल में आपको निवेश या किसी को उधार पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वापसी की उम्मीद बहुत कम है। लग्नस्थ मंगल के प्रभाव से शारीरिक आरोग्यता अनुकूल करने में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है।

गुरु के गोचर के बाद समय अच्छा हो रहा है। उस समय आपका रुका हुआ धन मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सप्तम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से पत्नी या मित्रों से धन लाभ होगा। अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने में भी पैसा खर्च कर सकते हैं। भौतिक सुख सुबिधा पर भी आपका अधिक खर्च होगा। 26 नवम्बर के बाद रत्न आभूषण इत्यादि वस्तुओं की प्राप्ति होगी और आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ प्राप्त होगा।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

घर-परिवार, समाज

पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष सामान्यतः बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वर्ष के पूर्वार्द्ध में पारिवारिक माहौल बढ़िया नहीं रहेगा। अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। एक दूसरे प्रति वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो सकती है जिससे पारिवारिक अनुकूलता भंग हो सकती है। पारिवारिक स्थिति को अनुकूल बनाने में आपको मातुल पक्ष का अच्छा सहयोग मिलेगा।

26 जून बाद समय काफी अनुकूल हो रहा है। परिवार में पुत्रादि का विवाह या कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, उसमें आपकी अहम भूमिका होगी। सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आपके पत्नी के साथ सम्बन्ध मधुर होंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा।

संतान

संतान की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध अच्छा नहीं रहेगा। द्वादशस्थ गुरु पर राहु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से संतान संबंधित कुछ चिन्ताएं हो सकती हैं। आपके बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिससे उनकी शिक्षा-दीक्षा भी प्रभावित हो सकती है।

26 जून के बाद लग्न स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव से समय काफी अनुकूल हो रहा है। उस समय आपके बच्चे अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़ेगी। यदि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छे शैक्षणिक संस्थान में उनका प्रवेश हो जाएगा। नवविवाहित व्यक्तियों के लिए गर्भाधान का शुभ समय चल रहा है। आपके दूसरे बच्चे के लिए समय बहुत अच्छा है।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध सामान्यतः अनुकूल नहीं रहेगा। द्वादशस्थ गुरु एवं अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कफ, मधुमेह एवं पेट संबंधित बीमारियों के कारण आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। मौसम जनित बीमारियों से भी आप परेशान हो सकते हैं। अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से कभी-कभी बीमारी नहीं होने के बावजूद भी बीमारी जैसा अनुभाव होता रहेगा।

26 जून के बाद गुरु ग्रह का गोचरीय प्रभाव लग्न स्थान में होने से स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ आपका खान-पान एवं दिनचर्या भी अच्छी रहेगी। लग्न स्थान पर शुभ ग्रह का प्रभाव होने से आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करेंगे, जिससे आप का स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। आपकी धर्म पत्नी भी आपकी सेहत का पूर्ण ध्यान रखेंगी। 03 अक्टूबर के बाद आपकी सेहत फिर से प्रभावित हो सकती है।

करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा

षष्ठस्थ राहु के प्रभाव से प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को सफलता मिलेगी। आपको

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

करियर में स्थिरता प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको वर्ष के पूर्वार्द्ध में ही नौकरी मिल सकती है।

26 जून के बाद विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा हो रहा है। आप पढाई-लिखाई में आगे रहेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे शैक्षणिक संस्थान में आपका प्रवेश हो सकता है। तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के लिए समय काफी अनुकूल है।

यात्रा-तबादला

यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष काफी अच्छा है। द्वादशस्थ गुरु विदेश यात्रा के अच्छे योग बना रहे हैं। इस समय के अंतराल में आपकी विदेश यात्रा होगी।

26 जून के बाद नवमस्थ शनि पर गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव सेलम्बी यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं। तृतीय स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि छोटी यात्राएं कराती रहेगी।

धर्म कार्य एवं ग्रह शांति

वर्ष का पूर्वार्द्ध धार्मिक कार्यों के लिए सामान्य रहेगा। मानसिक अस्थिरता के कारण आप धार्मिक कार्य कम ही कर पाएंगे परन्तु द्वादशस्थ गुरु के प्रभाव से आप दान पुण्य अधिक करेंगे। गरीबों, भिखारियों को खाना खिलाना, धार्मिक स्थान पर भण्डारा करना आपका नैसर्गिक गुण होगा। अष्टम स्थान पर गुरु एवं शनि ग्रह के गोचरीय प्रभाव से तन्त्र के प्रति आपका आकर्षण ज्यादा रहेगा। 26 जून के बाद गुरु ग्रह का गोचर लग्न स्थान में होगा। उस समय नवम एवं पंचम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपका आध्यात्मिक ज्ञान और बढ़ेगा। निःस्वार्थ भाव से आप पूजा पाठ में रुचि लेंगे। आप अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं उनके दिये गये उपदेशों का पालन करेंगे।

- माता-पिता, गुरु, साधू, संन्यासी और अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें।
- मंदिर या धार्मिक स्थानों पर केला या बेसन के लड्डू वितरित करें।
- प्रत्येक दिन हनुमान चालिसा का पाठ करें।
- शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें।

वार्षिक फलादेश - 2028

वर्षारम्भ में मीन राशि के शनि अष्टम भाव में रहेंगे और 23 फरवरी को मेष राशि एवं नवम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु वर्ष के शुरुआत में मकर राशि एवं षष्ठ भाव में रहेंगे और 24 मई को धनु राशि एवं पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। वर्षारम्भ में कन्या राशि के गुरु द्वितीय भाव में रहेंगे और वक्री होकर 28 फरवरी को सिंह राशि एवं लग्न स्थान में प्रवेश करेंगे और फिर से मार्गी होकर 24 जुलाई को कन्या राशि एवं द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष मंगल ग्रह अपनी सरल गति से गोचर करेंगे। 28 मई से 6 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे।

व्यवसाय

वर्षारम्भ कार्य व्यवसाय के लिए सामान्य रहेगा। अष्टम स्थान के शनि व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति बना रहे है। गुप्त शत्रु आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे परन्तु सामने नहीं आएंगे। फरवरी के बाद आप कोई नया कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं। लग्नस्थ गुरु के प्रभाव से आपके अंदर नवीन विचारधाराएं नयी योजनाओं को जन्म देंगी जिसका उचित लाभ उठा कर आप अपने व्यापार को और सुदृढ़ बना सकते हैं।

नवम स्थान पर गुरु एवं शनि ग्रह के गोचरीय प्रभाव से आपका भाग्य भी आपके अनुकूल रहेगा। अतः कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़े व्यक्तियों को इच्छित लाभ होगा। 24 जुलाई के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नती होने के प्रबल योग बन रहे हैं।

धन संपत्ति

वर्ष का प्रारम्भ आर्थिक उन्नति के साथ होगा। द्वितीयस्थ गुरु के प्रभाव से रत्नाभूषण इत्यादि वस्तुओं की प्राप्ति होगी। संचित धन में वृद्धि होगी। फरवरी के बाद व्यापारिक अनुकूलता के कारण धनागम में वृद्धि होगी, जिससे आप इच्छित बचत करने में सफल रहेंगे। कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिल सकती है। 24 जुलाई के बाद आपके रुके हुए या फंसे हुए पैसे मिल सकते हैं। छठे स्थान का राहु शत्रुओं से भी लाभ करा सकता है। सामाजिक व धार्मिक कार्यों में भी व्यय करेंगे।

24 जुलाई के बाद मांगलिक कार्यों में व्यय करेंगे। अष्टम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से पैतृक संपत्ति या स्थिर धन का लाभ होगा। पंचम का राहु संतान के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करा सकता है।

घर-परिवार, समाज

वर्षारम्भ में ही परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि होगी, जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। परिवार में एक-दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। जिससे आपस में भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। परन्तु अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

राहु ग्रह के गोचर के बाद संतान संबंधित परेशानी हो सकती है। पंचमस्थ राहु उनका स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। आप सामाजिक गतिविधियों में कम ही भाग लेंगे।

संतान

वर्षारम्भ संतान के लिए उत्तम रहेगा। द्वितीयस्थ गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। फरवरी के बाद आपके दूसरे बच्चे के लिए समय बहुत अच्छा हो रहा है। यदि आपका दूसरा बच्चा विवाह योग्य है तो उसका विवाह हो सकता है।

24 मई के बाद पंचम स्थान का राहु आपके बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। अतः उसके स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपके बच्चों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा।

स्वास्थ्य

अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से वर्षारम्भ में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा परन्तु 28 फरवरी के बाद लग्न स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव के बाद समय बहुत अच्छा हो रहा है। लग्न स्थान पर शुभ ग्रह होने से आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से सन्तुष्ट रहेंगे। प्रत्येक कार्य को सकारात्मक रूप से करेंगे। आपके अन्दर रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी।

वर्ष के उतरार्द्ध में लग्न स्थान पर राहु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपका स्वास्थ्य किंचित प्रभावित हो सकता है। मौसमजनित बीमारी या आलस्य की भावना उत्पन्न हो सकती है परन्तु आप शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे और अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए नियमित व्यायाम करेंगे। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें।

करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा

वर्षारम्भ षष्ठस्थ राहु के प्रभाव से प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उत्तम रहेगा। आप अपने सारे शत्रुओं को परास्त करते हुए करियर में सफलता प्राप्त करेंगे। बेरोजगार जातकों को मनोनुकूल नौकरी मिल सकती है।

24 मई के बाद समय कुछ प्रभावित हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। उनको करियर में सफलता प्राप्त के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है।

यात्रा-तबादला

द्वादश स्थान पर राहु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से वर्षारम्भ में ही विदेश यात्रा हो सकती है।

फरवरी के बाद नवमस्थ शनि पर गुरु ग्रह की दृष्टि के कारण आपकी लम्बी यात्रा

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997


shubhmamishra26@gmail.com

होगी साथ ही छोटी-मोटी यात्राएं भी होती रहेंगी।

धर्म कार्य एवं ग्रह शांति

धार्मिक कार्यों के लिए वर्ष का प्रारम्भ सामान्य रहेगा। फरवरी के बाद नवम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप आप पूजा, पाठ, यज्ञ व अनुष्ठान अधिक करेंगे। पंचम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से ईश्वर में आपका अटूट विश्वास होगा। दान पुण्य करने में आप आगे रहेंगे परन्तु वर्ष का उत्तरार्द्ध धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा नहीं रहेगा।

- शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें एवं शनि मन्त्र का पाठ करें।
- प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
- दुर्गाजी की उपासना करें या दुर्गा बीसा कवच गले में धारण करें।



ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

वार्षिक फलादेश - 2029

वर्ष के पूर्वार्द्ध में मेष राशि के शनि नवम भाव में रहेंगे और 08 अगस्त को वृष राशि एवं दशम भाव में प्रवेश करेंगे और वक्री होकर फिर से 05 अक्टूबर को मेष राशि एवं नवम भाव में आ जाएंगे। धनु राशि के राहु पंचम भाव में रहेंगे। वर्षारम्भ में तुला राशि के गुरु तृतीय भाव में रहेंगे और वक्री होकर 29 मार्च को कन्या राशि एवं द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे और फिर से मार्गी होकर 25 अगस्त को तुला राशि एवं तृतीय भाव में आ जाएंगे। वक्री मंगल 27 जुलाई तक कन्या राशि एवं द्वितीय भाव में रहेंगे। 15 फरवरी से 16 अप्रैल तक शुक्र अस्त रहेंगे।

व्यवसाय

वर्षारम्भ में कार्य व्यवसाय में उन्नति करेंगे। नवम स्थान पर शनि एवं गुरु के गोचरीय प्रभाव के चलते आपका भाग्य साथ देगा। व्यावसायिक उन्नति के सारे मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यापार में भाइयों का अच्छा सहयोग मिलेगा। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा।

29 मार्च से सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे जिसका उचित लाभ उठा कर आप अपने कार्य में सफल होंगे। गुरु के प्रभाव से आमदनी के नये स्रोत खुलने की उम्मीद है। 25 अगस्त के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति होगी व कार्य स्थल पर मान सम्मान भी बढ़ेगा। अनुभवी व वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलने से आप अपने व्यापार में और अधिक सुधार करेंगे।

धन संपत्ति

आर्थिक दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ उत्तम रहेगा। व्यापारिक अनुकूलता के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भाग्य अनुकूल होने से आप बचत करने में सफल रहेंगे परन्तु द्वितीयस्थ मंगल के कारण आपके पारिवारिक खर्च भी बढ़ेंगे। 29 मार्च के बाद रत्नाभूषण इत्यादि वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। पुराने कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे उसमें भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं।

वर्ष के उत्तरार्द्ध में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में आपके पिता की अहम भूमिका होगी। पंचम स्थान का राहु आपकी संतान के स्वास्थ्य पर भी व्यय करा सकता है।

घर-परिवार, समाज

वर्ष का प्रारम्भ सामाजिक उन्नति के साथ होगा। तृतीयस्थ गुरु पर शनि की दृष्टि प्रभाव से सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 29 मार्च के बाद आपके परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि होगी। पंचमस्थ राहु आपके बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है।

25 अगस्त के बाद चतुर्थ स्थान पर शनि की दृष्टि प्रभाव से पारिवारिक अनुकूलता भंग हो सकती है। आपके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में कुछ लोगों का

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

बर्ताव ठीक नहीं रहेगा।

संतान

यह वर्ष संतान के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पंचम स्थान का राहु संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और उनकी शिक्षा में भी रुकावटें उत्पन्न कर सकता है। नवविवाहित व्यक्तियों को संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती स्त्रियों अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं तो गर्भपात भी हो सकता है।

आपकी दूसरी संतान के लिए समय अच्छा है। उनकी शिक्षा-दीक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी एवं अपने परिश्रम के बल पर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ सामान्य रहेगा। लग्न स्थान पर राहु की दृष्टि से अचानक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अतः स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए अच्छी नहीं होगी। 29 मार्च से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा।

25 अगस्त से आपको खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। चिकनाईयुक्त व तली हुई वस्तुओं का कम से कम सेवन करना चाहिए। कुछ बेवजह की यात्राएं और काम का बोझ आपको थका सकता है।

करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा

आपको लगातार अथक परिश्रम के बाद सफलता मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल रहेगा। नवम स्थान पर गुरु की दृष्टि व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करा सकती है।

छठे स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि प्रभाव से प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को सफलता मिलेगी। बेरोजगार जातकों को रोजगार मिल सकता है।

यात्रा-तबादला

वर्ष का प्रारम्भ यात्रा की दृष्टि से अनुकूल है। गुरु के प्रभाव से छोटी यात्राओं के साथ आपकी लम्बी यात्राएं भी होंगी। तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना भी बन सकती है। 25 अगस्त के बाद द्वादश स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि प्रभाव से विदेश यात्रा भी होगी।

चतुर्थ स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि प्रभाव से नौकरी करने वाले व्यक्तियों का स्थानान्तरण हो सकता है। यह परिवर्तन आपके प्रतिकूल स्थान पर भी सकता है।

धर्म कार्य एवं ग्रह शांति

वर्षारम्भ में गुरु ग्रह की दृष्टि नवम स्थान पर पड़ रही है जिसके कारण आपका

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

मन धार्मिक कार्यों की ओर आकृष्ट होगा। आप कोई विशेष अनुष्ठान करेंगे जैसे- अखण्ड रामायण का पाठ, माता की चौकी, माता का जागरण इत्यादि।

- मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाकर गरीबों में वितरित करें।
- दुर्गा जी की उपासना करें या राहु मन्त्र का पाठ करें।



ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com

वार्षिक फलादेश - 2030

वर्षारम्भ में मेष राशि के शनि नवम भाव में रहेंगे और 17 अप्रैल को वृष राशि एवं दशम भाव में प्रवेश करेंगे धनु राशि के राहु पंचम भाव में रहेंगे और 04 फरवरी को वृश्चिक राशि एवं चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे 25 जनवरी को गुरु वृश्चिक राशि एवं चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वक्री होकर 01 मई को तुला राशि एवं तृतीय भाव में गोचर करेंगे और फिर से मार्गी होकर 23 सितम्बर को वृश्चिक राशि एवं चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इस वर्ष मंगल अपनी सरल गति से गोचर करेंगे 27 सितम्बर से 18 नवम्बर तक शुक्र अस्त रहेंगे

व्यवसाय

यह वर्ष आपके लिए कई लाभकारी अवसर लेकर आ रहा है। आप अपने व्यावसायिक जीवन में कुछ विशेष करेंगे जिससे आपके सहयोगी और अधिकारी भी प्रभावित होंगे। अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे राहु एवं गुरु का गोचर अनुकूल नहीं होने के कारण व्यावसायिक जीवन में थोड़े बहुत अवरोध आएंगे। इस दौरान आपके कार्यों में देरी भी हो सकती है जिसके चलते तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। जैसे ही यह प्रभाव खत्म होगा आपका समय फिर से अनुकूल हो जाएगा और सब कुछ आपके हित में होने लगेगा। आप अपने लक्ष्यों को योजनानुसार प्राप्त कर सकेंगे।

जो व्यक्ति नवीन रोजगार की तलाश में हैं उन्हें अड़चनों के बाद सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों का प्रतिकूल स्थान पर स्थानान्तरण होगा। अप्रैल के बाद आपको रोजगार से सम्बन्धित सुखद समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे और आप पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।

धन संपत्ति

आर्थिक दृष्टि से यह साल आपके लिए चुनौतियों के साथ अनेक लाभ भी लाएगा। 04 फरवरी के बाद नए निवेश करना सही नहीं होगा। भूमि, भवन एवं वाहनादि पर निवेश न करें नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। इस समय आप इस बात पर ध्यान दें कि भविष्य में किए जाने वाले निवेशों से लाभ किस प्रकार पाया जाए और एक सही योजना बना कर आप निवेश से लाभान्वित भी हो सकते हैं।

अप्रैल के बाद कोई खोया हुआ जरूरी दस्तावेज भी मिल सकता है। यदि ऋण के लिए आवेदन किया है तो वह भी बिना देरी के मंजूर हो जाएगा। हर प्रकार की आर्थिक परेशानियां तुरंत ही दूर हो जाएंगी। परिवार में मांलिक कार्य होंगे जिसमें आप खुले हाथों से व्यय करेंगे

घर-परिवार, समाज

पारिवारिक वातावरण में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। 04 फरवरी के बाद चतुर्थस्थ राहु आपको घरेलू जीवन में कुछ चिंताएं दे सकता है जिससे परिजनों के बीच

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

सामंजस्य बिठाने में कठिनाई पैदा होंगी। ऐसे में विपरीत परिस्थितियों से निबटने के लिए आपको अपने अन्दर प्रतिरोधात्मक शक्ति विकसित करनी होगी।

आपके माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अचानक ही उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मई के बाद आपका समाजिक स्तर बढ़ेगा। मान-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इस समय के अंतराल में समाज में आपकी एक अगल पहचान होगी।

संतान

वर्ष की शुरुआत संतान के लिए शुभ नहीं है। लग्न स्थान का राहु गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात करा सकता है। आपके बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। उनकी शिक्षा-दीक्षा भी प्रभावित हो सकती है।

गुरु ग्रह के गोचर के बाद आपकी दूसरे संतान के लिए समय अच्छा हो रहा है। उस समय आपकी दूसरी संतान के साथ प्रेम व समन्वय में वृद्धि होगी। यदि संतान की इच्छा रखते हैं तो यह समय श्रेष्ठ है। आप अपने बच्चों के मनोबल को बढ़ाते रहें तो वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

स्वास्थ्य

वर्ष के प्रारम्भ में स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। 04 फरवरी के बाद आप अपने आप को तंदरुस्त और सेहतमंद महसूस करेंगे क्योंकि आपके अन्दर उत्साहवर्धक ऊर्जा की वृद्धि होगी।

मई से आप अपनी दिनचर्या में नयी गतिविधियों को शामिल करेंगे जैसे कि व्यायाम करना या सुबह-सुबह टहलने जाना। यदि आलस्य ने आपके अन्दर घर बना लिया है तो आपका स्वास्थ्य एक चिंताजनक विषय बन सकता है।

करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा

करियर एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। चतुर्थ स्थान में राहु एवं गुरु की युति माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे शिक्षार्थियों के लिये भ्रम और असमंजस की स्थिति बनायेगी।

यदि आप अपने शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं, तो नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। शनि ग्रह के गोचर के बाद आप कोई विदेशी भाषा सीखने की तरफ आकर्षित होंगे। विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तम योग बन रहा है।

यात्रा-तबादला

नवमस्थ शनि के प्रभाव से छोटी-मोटी यात्राओं के साथ आप लम्बी-लम्बी यात्राएं भी करेंगे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा।

नौकरी करने वाले व्यक्तियों का स्थानान्तरण होगा। 17 अप्रैल के बाद द्वादश स्थान

ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR

(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)

9559152997

shubhmamishra26@gmail.com

पर शनि ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आपकी विदेश यात्राएं होंगी।

धर्म कार्य एवं ग्रह शांति

कोई भी शुभ कार्य योजनाबद्ध तरीके से ही संपन्न करें अन्यथा पूजादि कार्यों में व्यवधान आने की आशा है। 17 अप्रैल से आप अपने कार्य-व्यवसाय पर अधिक ध्यान देंगे और कर्म ही पूजा है इस वाक्य को चरितार्थ करेंगे

- प्रत्येक दिन सूर्य को जल दे एवं प्रणायाम करें।
- बुधवार के दिन चींटियों को दाना डालें एवं भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाएं।
- नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें।



ACHARYA RAVINS KUMAR MISHRA

LUCKNOW HANUMAN SETU MANDIR
(मुख्यमंत्री आवास गोमती नगर लखनऊ)
9559152997
shubhmamishra26@gmail.com